

# Num

## Chapter 4

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1  
וַיִּדְבֹר וַיְהִיָּה אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-אַהֲרֹן לֵאמֹר:  
और-बोला और-यहोवा से-मूसा और-से-हारून कहते-हुए  
[H0853](#) [H3068](#) [H0413](#) [H4872](#) [H0413](#) [H0175](#) [H0559](#)

यहोवा ने मूसा और हारून से कहा:

2  
וְנָשָׂא וְאֶת-רֹאשׁ בְּנֵי קְהָת מִבְּיַחַד לְמִשְׁפַּחַתָּם לְבֵית  
उठा को-सिर पुत्रों-का पुत्रों-के से-बीच कहात-के पुत्रों-के उनके-कुलों-के-अनुसार के-घराने  
[H0853](#) [H5375](#) [H6955](#) [H8432](#) [H3878](#) [H4940](#)

אֲבֹתָם:  
उनके-पूर्वजों-के  
[H0001](#)

“कहात परिवार समूह के पुरुषों को गिनो। (कहात परिवार समूह लेवी परिवार समूह का एक भाग है।)

3  
מִבְּנֵי שְׁלֹשִׁים וּשְׁנָה וּמֵעַלָּה וְעַד בֶּן-חַמְשִׁים שָׁנָה כָּל-בֶּן  
से-पुत्र तीस वर्ष और-ऊपर और-तक पुत्र-पचास वर्ष हर-आने-वाला के-सेना  
[H0935](#) [H3605](#) [H8141](#) [H2572](#) [H5704](#) [H4605](#) [H8141](#) [H7970](#)

לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּאֶהָל מוֹעֵד:  
करने-के-लिए काम में-तम्बू मिलाप-के  
[H4150](#) [H0168](#) [H4399](#)

अपने सेवा कर्तव्य का निर्वाह करने वाले तीस से पचास वर्ष की उम्र वाले पुरुषों को गिनो। ये व्यक्ति मिलापवाले तम्बू में कार्य करेंगे।

4  
זֹאת עֲבֹדַת בְּנֵי-קְהָת בְּאֶהָל מוֹעֵד קֹדֶשׁ הַקֹּדֶשִׁים:  
यह सेवा पुत्रों-की- कहात-के में-तम्बू कदाचित्त-का पवित्र पवित्र मिलाप-के  
[H6944](#) [H6944](#) [H4150](#) [H0168](#) [H6955](#) [H5656](#) [H2063](#)

उनका कार्य मिलापवाले तम्बू के सर्वाधिक पवित्र स्थान की देखभाल करना है।

5  
וּבָא וְאֶהֲרֹן וּבָנָיו בְּנֵי-עֵשָׂו וּבָנֵי-יִשְׂמָעֵאל וְכֹסֶם  
और-आएगा हारून और-उसके-पुत्र और-उसके-पुत्र और-उतारेंगे और-उतारेंगे आवरण-का परदा को  
[H0175](#) [H0935](#) [H5265](#) [H4264](#) [H3381](#) [H0853](#) [H6532](#) [H4539](#) [H3680](#)

הָעֵדֻת:  
साक्षी-का संदूक को उससे  
[H5715](#) [H0727](#) [H0853](#)

“जब इस्राएल के लोग नए स्थान की यात्रा करें तो हारून और उसके पुत्रों को चाहिए कि वे पवित्र तम्बू में जाएँ और पर्दे को उतारें और साक्षीपत्र के पवित्र सन्दूक को उससे ढकें।

6  
וְנָתַנּוּ וְעָלְיוּ עֹר וְכֹסֶם וְעָלְיוּ מְלִמְעָלָה וְשָׂמוּ  
और-रखेंगे और-रखेंगे उस-पर आवरण चमड़ा आवरण ऊपर-से नीला-का पूरा वस्त्र-और-बिछाएंगे सुइस-का चमड़ा आवरण उस-पर और-रखेंगे  
[H5414](#) [H3681](#) [H5785](#) [H8476](#) [H6566](#) [H3632](#) [H8504](#) [H4605](#)

בְּרִיּוֹ:  
उसके-डंडों  
[H0905](#)

तब वे इन सबको सुइसों के चमड़े से बने आवरण में ढकें। तब वे पवित्र सन्दूक पर बिछे चमड़े पर पूरी तरह से एक नीला वस्त्र फैलाएंगे और पवित्र सन्दूक में कड़ों में डंडे डालेंगे।



“पवित्र स्थान में उपासना के उपयोग में आने वाली सभी विशेष चीजों को एक साथ इकट्ठा करो। इन्हें एक साथ इकट्ठा करो और इनको नीले कपड़े में लपेटो। तब इसे सुइसों के चमड़े से ढको। इन चीजों को ले जाने के लिए इन्हें एक ढाँचे पर रखो।

13  
 וְדָשְׁנוּ אֶת-הַמִּזְבֵּחַ וּפָרְשׂוּ עָלָיו בָּגָד אַרְגָּמָן:  
 और-राख-हटाएंगे को-वेदी वेदी और-बिछाएंगे उस-पर उस-पर वस्त्र बैंगनी-का  
[H1878](#) [H0853](#) [H4196](#) [H6566](#) [H0713](#)

“काँसेवाली वेदी से राख को साफ कर दो और इसके ऊपर एक बैंगनी रंग का कपड़ा फैलाओ।

14  
 וְנִתְּנוּ עָלָיו אֶת-כָּל-בְּרֵיתוֹ אֲשֶׁר יִשְׂרָתוּ עָלָיו בְּהֵם אֶת-הַמִּחְתָּה  
 और-रखेंगे उस-पर उस-पर जिनसे सेवा-करते-हैं उस-पर उनमें को-धूपदान  
[H5414](#) [H0853](#) [H3605](#) [H3627](#) [H8334](#) [H0853](#) [H4289](#)

אֶת-הַמְּזֻלָּה וְאֶת-הַיַּעֲמִים וְאֶת-כָּל-בְּרֵיתוֹ אֲשֶׁר יִשְׂרָתוּ עָלָיו בְּרֵיתוֹ אֲשֶׁר יִשְׂרָתוּ עָלָיו  
 को-कांटे और-को-फावड़े और-को-उसके-बर्तनों और-को-उसके-बर्तनों और-बिछाएंगे और-बिछाएंगे  
[H0853](#) [H3257](#) [H0853](#) [H3605](#) [H4219](#) [H3605](#) [H3627](#) [H4196](#) [H6566](#)  
 כֶּסֶף עוֹר חֶחֶשׁ וְשִׁמּוֹן בְּרֵיתוֹ  
 आवरण चमड़े सुइस-के और-रखेंगे उसके-डंडे  
[H3681](#) [H5785](#) [H8476](#) [H0905](#)

तब वेदी पर उपासना के लिए उपयोग में आने वाली चीजों को इकट्ठा करो। आग के तसले, माँस के लिए काँटे, बेलचे और चिलमची हैं। इन चीजों को काँसे की वेदी पर रखो। तब वेदी के ऊपर सुइसों के चमड़े का आवरण फैलाओ। वेदी में लगे कड़ों में, इसे ले जाने वाले डंडे डालो।

15  
 וְכִלָּה אֶהְרֹן וּבָנָיו לְכֶסֶת אֶת-הַקֹּדֶשׁ וְאֶת-כָּל-בְּרֵיתוֹ  
 और-समाप्त-करेगा और-उसके-पुत्र ढकने-के-लिए और-उसके-पुत्र पवित्र-स्थान पवित्र-के बर्तन  
[H3615](#) [H0175](#) [H3680](#) [H0853](#) [H6944](#) [H0853](#) [H3605](#) [H3627](#) [H6944](#)

בְּנֹסֶע הַמַּחֲנֶה וְאַחֲרָיו כִּן יָבֹאוּ בְנֵי-קְהָת לְשֵׂאת וּלְאֹ-יָגֵעוּ אֶל-בְּנֵי-קְהָת  
 जब-कूचे छावनी और-बाद-आएंगे उसके पुत्र-आएंगे कहान्त-के पुत्र-कहात-के लिए-उठाने-के-लिए और-न-छुएंगे को-  
[H5265](#) [H4264](#) [H0935](#) [H6955](#) [H5375](#) [H3808](#) [H5060](#) [H0413](#)  
 הַקֹּדֶשׁ וּמִתּוֹ אֵלֶּה מִשָּׂא בְנֵי-קְהָת בְּאֵהָל מוֹעֵד  
 पवित्र-स्थान और-मरेंगे ये भार पुत्रों-का-कहात-के तम्बू में-के-मिलाप-के  
[H6944](#) [H4191](#) [H0428](#) [H6955](#) [H0168](#) [H4150](#)

“जब हारून और उसके पुत्र पवित्र स्थान की सभी पवित्र चीजों को ढकना पुरा कर लें तब कहात परिवार के व्यक्ति अन्दर आ सकते हैं और उन चीजों को ले जाना आरम्भ कर सकते हैं। इस प्रकार वे इस पवित्र वस्तुओं को छुएंगे नहीं। सो वे मरेंगे नहीं।

16  
 וּפְקֻדֹת וְאַלְעָזָר בֶּן-אֶהְרֹן אֶהְרֹן הַכֹּהֵן שֶׁמֶן הַקִּיָּיִץ וְהַמִּזְבֵּחַ וּמִנְחַת הַתְּמִיד  
 और-गिनती एलआज़ार पुत्र-हारून पुत्र-हारून याजक-के तेल रोशनी-का और-धूप सुगंधित-का और-भेंट और-नित्य-की  
[H6486](#) [H0499](#) [H0175](#) [H3548](#) [H8081](#) [H3974](#) [H7004](#) [H5561](#) [H4503](#) [H8548](#)

וְשִׁמּוֹן הַמִּשְׁחָה פְּקֻדֹת כָּל-הַמִּשְׁכָּן וְכָל-אֲשֶׁר-בּוֹ בְּקֹדֶשׁ וּבְכֻלָּיו  
 और-तेल और-तेल का अभिषेक-का गिनती गिनती सब-निवास-की और-सब-जो-में-पवित्र-स्थान में-पवित्र-स्थान और-उसके-बर्तनों-में  
[H8081](#) [H6486](#) [H3605](#) [H4908](#) [H3605](#) [H6944](#) [H3627](#)

5  
 9

“याजक हारून का पुत्र एलीअज़ार पवित्र तम्बू के लिए उत्तरदायी होगा। वह पवित्र स्थान और इसकी हर एक चीज़ के लिए उत्तरदायी होगा। वह दीपक के तेल, मधुर सुगन्धवाली सुगन्धि तथा दैनिक बलि और अभिषेक के तेल के लिये उत्तरदायी होगा।”

17  
 וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-אַהֲרֹן לֵאמֹר:  
 और-बोला और-बोला से-मूसा से-हारून कहते-हुए  
[H1696](#) [H3068](#) [H0413](#) [H4872](#) [H0413](#) [H0175](#) [H0559](#)

यहोवा ने मूसा और हारून से कहा,



וְאֵת	קָלְעִי	הַחֲזָר	וְאֵת	וּמִסָּדָ	וּפְתַח	שָׁעַר	הַחֲזָר	אֲשֶׁר	עַל-	הַמִּשְׁכָּן	
और-को	परदों	आंगन-के	और-को-	परदा	द्वार	फाटक	आंगन-का	जो	पर-	निवास	
<a href="#">H0853</a>			<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4539</a>	<a href="#">H6607</a>	<a href="#">H8179</a>				<a href="#">H4908</a>	
וְעַל-	הַמִּזְבֵּחַ	סָבִיב	וְאֵת	מִיתְרֵיהֶם	וְאֵת-	כָּל-	כָּלִי	עֲבַדְתֶּם	וְאֵת	כָּל-	
और-पर-	वेदी	चारों-ओर	और-को	उनकी-रस्सियाँ	और-को-	सब-	बर्तन	उनकी-सेवा-के	और-को	सब-	
	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H5439</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4340</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H5656</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	
					וְעָבְדוּ:	וְעָבְדוּ:	וְעָבְדוּ:	וְעָבְדוּ:	וְעָבְדוּ:	וְעָבְדוּ:	
					और-सेवा-करेंगे	और-सेवा-करेंगे	और-सेवा-करेंगे	और-सेवा-करेंगे	और-सेवा-करेंगे	और-सेवा-करेंगे	
					<a href="#">H5647</a>						

उन्हें आँगन के उन पर्दों को, जो पवित्र तम्बू और वेदी को चारों ओर लगे हैं, ले चलना चाहिए। उन्हें आँगन के प्रवेश द्वार का पर्दा भी ले चलना चाहिए। उन्हें सारी रस्सियाँ और पर्दे के साथ उपयोग में आनेवाली सभी चीजें ले चलनी चाहिए। गेशॉन वंश के लोग उस किसी भी चीज़ के लिए उत्तरदायी होंगे जो इन चीज़ों से की जानी है।

עַל-	פִּי	אֶהָרֹן	וּבְנָיו	תְּהִיָּה	כָּל-	עֲבַדְתָּ	בְּנֵי	הַגֵּרְשָׁנִי	לְכָל-	מִשְׁאֵם	
पर-	वचन	हारून	और-उसके-पुत्रों-के	होगी	सब-	सेवा	पुत्रों-की	गेरशोनी-के	के-सब-	उनके-भारों	
	<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H0175</a>		<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5656</a>		<a href="#">H1649</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3605</a>	

हारून और उसके पुत्र इन सभी किए गए कार्यों की निगरानी करेंगे। होशॉन वंश के लोग जो कुछ ले जाएंगे और जो दूसरे कार्य करेंगे उनकी निगरानी हारून और उसके पुत्र करेंगे। तुम्हें उनको वे सभी चीज़ें बतानी चाहिए जिनके ले जाने के लिये वे उत्तरदायी हैं।

זָאת	עֲבַדְתָּ	מִשְׁפָּחָת	בְּנֵי	הַגֵּרְשָׁנִי	בְּאֶהָל	מוֹעֵד	וּמִשְׁמֶרְתָּם	בִּיד	אֵיתָמָר	בֶּן-	
यह	सेवा	कुलों-की	पुत्रों-के	गेरशोनी-के	में-तम्बू	मिलाप-के	और-उनकी-पहरा	के-हाथ	ईतामार	पुत्र-	
<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H5656</a>	<a href="#">H4940</a>		<a href="#">H1649</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H4931</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H0385</a>		

यही काम है जिसे गेशॉन वंश के परिवार समूह के लोगों को मिलापवाले तम्बू के लिए करना है हारून का पुत्र ईतामार याजक उनके काम के लिए उत्तरदायी होगा।”

בְּנֵי	מִרְרֵי	לְמִשְׁפַּחְתָּם	לְבֵית-	אֲבֹתָם	הַפְּקָד	אֲתָם:	
पुत्र	मरारी-के	उनके-कुलों-के-अनुसार	के-घराने-	उनके-पूर्वजों-के	गिनेगा	उनको	
<a href="#">H4847</a>	<a href="#">H4940</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H0853</a>				

“मरारी परिवार समूह के परिवार ओर परिवार समूह के पुरुषों को गिनो।

מִבֶּן	שְׁלֹשִׁים	שָׁנָה	וּמַעְלָה	וְעַד	בֶּן-	חַמְשִׁים	שָׁנָה	תְּפַקְדֶם	כָּל-	הַבָּא	
से-पुत्र	तीस	वर्ष	और-ऊपर	और-तक	पुत्र-	पचास	वर्ष	गिनेगा-उनको	हर-	आने-वाला	
	<a href="#">H7970</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H4605</a>	<a href="#">H5704</a>		<a href="#">H2572</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0935</a>	

सेवा—कर्तव्य कर चुके तीस से पचास वर्ष के सभी पुरुषों को गिनो। ये लोग मिलापवाले तम्बू के लिए विशेष कार्य करेंगे।

וְזֹאת	מִשְׁמֶרְתָּ	מִשְׁאֵם	לְכָל-	עֲבַדְתָּם	בְּאֶהָל	מוֹעֵד	קָרְשֵׁי	הַמִּשְׁכָּן	וּבְרִיחָיו	
और-यह	पहरा	उनके-भारों-का	के-सब-	उनकी-सेवा	में-तम्बू	मिलाप-के	तख्ते	निवास-के	और-उसके-बेड़े	
<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H4931</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5656</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H7175</a>	<a href="#">H4908</a>	<a href="#">H1280</a>	

וְעַמּוּדָיו  
और-उसके-खंभे  
[H5982](#)

וְאֶדְנָיו:  
और-उसके-आधार  
[H0134](#)

जब तुम यात्रा करोगे तब उनका यह कार्य है कि वे मिलापवाले तम्बू के तख्ते ले चलें। उन्हें तख्ते, खम्भों और आधारों को ले चलना चाहिए।

כְּלִיָּהֶם उनके-बर्तनों	לְכֹל- के-सब-	וּמִיַּתְרֵיהֶם और-उनकी-रस्सियाँ	וַיִּתְּתֵם और-उनकी-खूंटियाँ	וְאֹדְנֵיהֶם और-उनके-आधार	סָבִיב चारों-ओर	הַקְּצָר आंगन-के	וְעַמּוּדָיו और-खंभे	32	
<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4340</a>	<a href="#">H3489</a>	<a href="#">H0134</a>	<a href="#">H5439</a>		<a href="#">H5982</a>		
		מִשָּׂאָם: उनके-भारों-के	מִשְׁמֶרֶת पहरे-के	כְּלִי- बर्तन	אֶת- को-	תִּפְקְדוֹ गिनोगे	וּבְשֵׁמֹת और-नामों-से	עֲבֹדָתָם उनकी-सेवा	וְלְכֹל और-के-सब
			<a href="#">H4931</a>	<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H5656</a>	<a href="#">H3605</a>	

उन्हें आँगन के चारों ओर के खम्भों को भी ले चलना चाहिए। उन्हें उन तम्बू की खूंटियों, रस्सियों और वे सभी चीजें जिनका उपयोग आँगन के चारों ओर के खम्भों के लिए होता है, ले चलना चाहिए। नामों की सूची बनाओ और हर एक व्यक्ति को बताओ कि उसे क्या—क्या चीज़े ले जाना है।

אֵיחָמָר ईतामार	בִּיד- के-हाथ	מוֹעֵד मिलाप-के	בְּאֶהָל में-तम्बू	עֲבֹדָתָם उनकी-सेवा	לְכֹל- के-सब-	מְרָרִי मरारी-के	בְּנֵי- पुत्रों-के	מִשְׁפָּחֹת कुलों-की	עֲבֹדָתָם सेवा	זֹאת यह	33
<a href="#">H0385</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H5656</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4847</a>		<a href="#">H4940</a>	<a href="#">H5656</a>	<a href="#">H2063</a>	
								הַכֹּהֵן: याजक-के	אֶהָרֹן हारून	בֶּן- पुत्र-	
								<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H0175</a>		

यही बातें हैं जिसे मरारी वंश के लोग मिलापवाले तम्बू के कार्यों में सेवा करने के लिए करेंगे। हारून का पुत्र ईतामार याजक इनके कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।”

לְמִשְׁפַּחֹתָם उनके-कुलों-के-अनुसार	הַקְּהָתִי कहाती-के	בְּנֵי- पुत्रों	אֶת- को-	הָעֵדָה मण्डली-के	וּנְשָׂאֵי और-प्रधानों-ने	וְאֶהָרֹן और-हारून-ने	מֹוסָא- मूसा-ने	וַיִּגְדָּל और-गिना	34	
<a href="#">H4940</a>	<a href="#">H6956</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5712</a>		<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H4872</a>			
								אֲבֹתָם: उनके-पूर्वजों-के	וּלְבֵית और-के-घराने	
								<a href="#">H0001</a>		

मूसा, हारून और इस्राएल के लोगों के नेताओं ने कहातवंश के लोगों को गिना। उन्होंने उनको परिवार और परिवार समूह के अनुसार गिना।

לְצִבָּא के-सेना	הַבָּא आने-वाला	כָּל- हर-	שָׁנָה वर्ष	חַמְּשִׁים पचास	בֶּן- पुत्र-	וְעַד और-तक	וּמֵעַלָּה और-ऊपर	שָׁנָה वर्ष	שְׁלֹשִׁים तीस	מִבְּנֵי- से-पुत्र	35
<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H2572</a>		<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H4605</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H7970</a>			
								מוֹעֵד: मिलाप-के	בְּאֶהָל में-तम्बू	לְעֹבְדָה सेवा-के-लिए	
								<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H5656</a>	

उन्होंने अपना सेवा—कर्तव्य कर चुके तीस से पचास वर्ष के उम्र के लोगों को गिना। इन लोगों को मिलापवाले तम्बू के लिए विशेष कार्य करने को दिए गए।

וַיְהִי और-थी	פְּקֻדֵיהֶם उनकी-गिनती	לְמִשְׁפַּחֹתָם उनके-कुलों-के-अनुसार	שְׁבַע सात	מֵאַזֹּת सौ	וּחַמְּשִׁים: और-पचास	36
<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H4940</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H2572</a>

कहात परिवार समूह में जो इस कार्य को करने की योग्यता रखते थे, दो हजार सात सौ पचास पुरुष थे।

אֵלֶּה ये	פְּקוּדֵי गिने-गए	מִשְׁפָּחֹת कुलों-के	הַקְּהָתִי कहाती-के	כָּל- सब-	הָעֹבְדִים सेवा-करने-वाले	בְּאֶהָל में-तम्बू	מוֹעֵד मिलाप-के	אֲשֶׁר जिन्हें	פָּקַד गिना	מֹוסָא- मूसा-ने	37
<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H4940</a>	<a href="#">H6956</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5647</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H4150</a>			<a href="#">H4872</a>		

इस प्रकार कहात परिवार के इन लोगों को मिलापवाले तम्बू के बिशेष कार्य करने के लिए दिए गए। मूसा और हारून ने इसे वैसे ही किया जैसा यहोवाने मूसा से करने को कहा था।

38  
 אֲבֹתָם : וּלְבֵית וּלְמִשְׁפַּחְתָּם גִּרְשׁוֹן בְּנֵי וּפְקוּדֵי  
 उनके-पूर्वजों-के और-के-घराने उनके-कुलों-के-अनुसार गेरशोन-के पुत्रों-के और-गिने-गए  
[H0001](#) [H4940](#) [H1648](#)

गेरशोन परिवार समूह को भी गिना गया।

39  
 לְצִבָּא הַבָּא כָּל- שָׁנָה חֲמִשִּׁים בֶּן- וְעַד וּמַעְלָה שָׁנָה שְׁלֹשִׁים מִבְּנֵי  
 के-सेना आने-वाला हर- वर्ष पचास पुत्र- और-तक और-ऊपर वर्ष तीस से-पुत्र  
[H0935](#) [H3605](#) [H8141](#) [H2572](#) [H5704](#) [H4605](#) [H8141](#) [H7970](#)  
 מוֹעֵד : בְּאֵהָל לְעִבְדָּה  
 मिलाप-के में-तम्बू सेवा-के-लिए  
[H4150](#) [H0168](#) [H5656](#)

सभी पुरुष जो अपना कर्तव्य सेवा कर चुके थे और तीस से पचास वर्ष की उम्र के थे, गिने गए। इन लोगों को मिलापवाले तम्बू में विशेष कार्य करने का सेवा—कार्य दिया गया।

40  
 וְשְׁלֹשִׁים : מֵאוֹת וְשָׁשׁ אֲלֵפִים אֲבֹתָם לְבֵית לְמִשְׁפַּחְתָּם פְּקוּדֵיהֶם וַיְהִי  
 और-तीस सौ और-छह दो-हजार उनके-पूर्वजों-के के-घराने उनके-कुलों-के-अनुसार उनकी-गिनती और-थे  
[H7970](#) [H3967](#) [H8337](#) [H0505](#) [H0001](#) [H4940](#) [H1961](#)

गेरशोन परिवार समूह के परिवारों में जो योग्य थे, वे दो हजार छः सौ तीस पुरुष थे।

41  
 פָּקַד אֲשֶׁר מוֹעֵד בְּאֵהָל הָעֵבֶד כָּל- גִּרְשׁוֹן בְּנֵי מִשְׁפַּחַת פְּקוּדֵי אֵלֶּה  
 गिना जिन्हें मिलाप-के में-तम्बू सेवा-करने-वाले सब- गेरशोन-के पुत्रों-के कुलों-के गिने-गए ये  
[H4150](#) [H0168](#) [H5647](#) [H3605](#) [H1648](#) [H4940](#) [H0428](#)  
 מִשָּׁה : וְאֵהָרֹן עַל- פִּי יְהוָה  
 मूसा-ने और-हारून-ने पर- वचन यहोवा-के  
[H3068](#) [H6310](#) [H0175](#) [H4872](#)

इस प्रकार इन पुरुषों को जो गेरशोन परिवार समूह के थे, मिलापवाले तम्बू में विशेष कार्य करने का सेवा—कार्य सौंपा गया। मूसा और हारून ने इसे वैसे ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को करने को कहा था।

42  
 אֲבֹתָם : לְבֵית לְמִשְׁפַּחְתָּם מְרָרִי בְּנֵי מִשְׁפַּחַת וּפְקוּדֵי  
 उनके-पूर्वजों-के के-घराने उनके-कुलों-के-अनुसार मरारी-के पुत्रों-के कुलों-के और-गिने-गए  
[H0001](#) [H4940](#) [H4847](#) [H4940](#)

मरारी के परिवार और परिवार समूह भी गिने गए।

43  
 לְצִבָּא הַבָּא כָּל- שָׁנָה חֲמִשִּׁים בֶּן- וְעַד וּמַעְלָה שָׁנָה שְׁלֹשִׁים מִבְּנֵי  
 के-सेना आने-वाला हर- वर्ष पचास पुत्र- और-तक और-ऊपर वर्ष तीस से-पुत्र  
[H0935](#) [H3605](#) [H8141](#) [H2572](#) [H5704](#) [H4605](#) [H8141](#) [H7970](#)  
 מוֹעֵד : בְּאֵהָל לְעִבְדָּה  
 मिलाप-के में-तम्बू सेवा-के-लिए  
[H4150](#) [H0168](#) [H5656](#)

सभी पुरुष जो अपना सेवा—कर्तव्य कर चुके थे और तीस से पचास वर्ष की उम्र के थे, गिने गए। इन व्यक्तियों को मिलापवाले तम्बू के लिए विशेष कार्य करने का सेवा—कार्य दिया गया।

44  
 וּמֵאוֹתָם : אֲלֵפִים שְׁלֹשָׁת לְמִשְׁפַּחְתָּם פְּקוּדֵיהֶם וַיְהִי  
 और-दो-सौ हजार तीन उनके-कुलों-के-अनुसार उनकी-गिनती और-थी  
[H3967](#) [H0505](#) [H7969](#) [H4940](#) [H1961](#)

मरारी परिवार समूह के परिवारों में जो लोग योग्य थे, वे तीन हजार दो सौ व्यक्ति थे।

